

118
12-17

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-1


देहरादून:: दिनांक: 06 अक्टूबर, 2017

विषय:-चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में राज्य की समस्त क्षेत्र पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2017-18 की द्वितीय छमाही किश्त की देय धनराशि का संक्रमण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के क्रम में शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार राज्य की समस्त क्षेत्र पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2017-18 की द्वितीय छमाही किश्त की देय धनराशि **₹365558000.00 (रु.छत्तीस करोड़ पचपन लाख अठावन हजार मात्र)** को श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत संक्रमित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- 2- उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संक्रमित की जा रही है:-
 - (i) संक्रमित की जा रही धनराशि से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का मानदेय पंचायती राज विभाग द्वारा जारी शासनादेश में उल्लिखित संशोधित धनराशि के अनुसार व जारी होने के दिनांक से किया जा सकेगा।
 - (ii) यह धनराशि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर उनके द्वारा निर्धारित अंश एवं सूत्र के अनुसार संक्रमित की जा रही है। धनराशि का उपयोग शासनादेश सं0-316/XXVII(1)/2017 दिनांक 31 मार्च, 2017 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार किया जायेगा।
 - (iii) क्षेत्र पंचायतों को संक्रमित की गई धनराशि कोषागार से आहरण करने हेतु बिल जिला पंचायतीराज अधिकारी द्वारा तैयार किये जायेंगे जिसे सम्बन्धित जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा तथा ट्रेजरी चैक/क्रॉस बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से क्षेत्र पंचायतों को उपलब्ध करायी जायेगी।
- 3- संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग अन्तर ग्रामीण कार्यों एवं (1) जलापूर्ति, (2) सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, (3) सैप्टेज प्रबन्धन सहित जल निकासी एवं स्वच्छता (4) सामुदायिक परिसम्पत्तियों का रख-रखाव, (5) स्ट्रीट लाईट, (6) आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण/अतिरिक्त कक्ष इत्यादि का निर्माण एवं सामुदायिक भवन निर्माण आदि पर किया जायेगा।
- 4- संक्रमित धनराशि के समुचित उपयोग के लिए विभागीय अधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो उत्तरदायी होंगे।



- 5- क्षेत्र पंचायतों को अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र ब्लाक प्रमुख से प्रतिहस्ताक्षर कराकर जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा निदेशक पंचायतीराज के माध्यम से, महालेखाकार, उत्तराखण्ड/सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन को भेजा जायेगा। प्रमाण-पत्र के साथ कराये गये कार्य का पूर्ण विवरण (कराये गये कार्य का नाम तथा व्यय की धनराशि सहित) भी भेजना होगा।
- 6- उपयोगिता-प्रमाण पत्र 31 मार्च, 2018 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित समयावधि तक उपयोगिता प्रमाण-पत्र निदेशक, पंचायतीराज के माध्यम से उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी का होगा।
- 7- संक्रमित धनराशि वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक-3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-02-पंचायती राज संस्थाएं-197-विकास खण्ड स्तरीय पंचायत-03-राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करें से समनुदेशन-00-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त।

संख्या:- /03 (वि.आ.निदे.)XXVII(1)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- आयुक्त कुंमाऊ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, उत्तराखण्ड।
- 4- निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, 223, विश्वकर्मा, भवन देहरादून, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6- निदेशक, कोषागार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7- समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 8- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 9- समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 10- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
- 11- निजी सचिव, मा0 पंचायतीराज मंत्री, मा0 मंत्री जी के अवलोनार्थ।
- 12- एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त।

शासनादेश संख्या:- 1002/03 (वि0आ0निदे0)/XXVII(1)/2017

दिनांक: 06 अक्टूबर, 2017 का संलग्नक

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में क्षेत्र पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2017-18 की द्वितीय किश्त की धनराशि का संक्रमण।

(रुहजार में)

जनपद का नाम	क्र.स	क्षेत्र पंचायत का नाम	वित्तीय वर्ष 2017-18 की द्वितीय किश्त की धनराशि का संक्रमण
1	2	3	4
1-अल्मोड़ा	1	स्याल्दे	3138
	2	ताकुला	2526
	3	धौलादेवी	3851
	4	भैसियाछाना	1969
	5	हवालबाग	3725
	6	लमगड़ा	3319
	7	द्वाराहाट	3480
	8	सल्ट	3620
	9	भिक्यासैण	2338
	10	ताड़ीखेत	3561
	11	चौखुटिया	2708
		योग	34235
2-बागेश्वर	1	कपकोट	6264
	2	गरुड	3705
	3	बागेश्वर	5303
		योग	15272
3-चमोली	1	कर्णप्रयाग	3039
	2	जोशीमठ	11082
	3	दशोली	2938
	4	घाट	2843
	5	पोखरी	2525
	6	गैरसैण	3623
	7	थराली	2262
	8	देवाल	2291
	9	नारायणबगड	2703
		योग	33306
4-चम्पावत	1	लोहाघाट	2622
	2	बाराकोट	2121
	3	पाटी	3369

जनपद का नाम	क्र.सं	क्षेत्र पंचायत का नाम	वित्तीय वर्ष 2017-18 की द्वितीय किश्त की धनराशि का संक्रमण
1	2	3	4
	4	चम्पावत	5262
		योग	13374
5-देहरादून	1	डोईवाला	7785
	2	रायपुर	5832
	3	सहसपुर	6918
	4	विकासनगर	6565
	5	चकराता	3298
	6	कालसी	2741
		योग	33139
6-हरिद्वार	1	भगवानपुर	7340
	2	खानपुर	2524
	3	रूड़की	6654
	4	नारसन	8323
	5	लक्सर	6919
	6	बहादुराबाद	11379
		योग	43139
7-नैनीताल	1	ओखलकाण्डा	2766
	2	भीमताल	2393
	3	बेतालघाट	2415
	4	हल्द्वानी	7441
	5	रामनगर	3290
	6	रामगढ	2196
	7	कोटाबाग	3069
	8	धारी	1778
		योग	25348
8-पौड़ी	1	बीरोंखाल	2902
	2	द्वारीखाल	3038
	3	दुगडडा	4826
	4	एकेश्वर	1782
	5	जयहरीखाल	2252
	6	कल्जीखाल	2479
	7	खिर्सू	1843
	8	कोट	2259
	9	नैनीडाडा	2661
	10	रिखणीखाल	2516

जनपद का नाम	क्र.सं.	क्षेत्र पंचायत का नाम	वित्तीय वर्ष 2017-18 की द्वितीय किश्त की धनराशि का संकलन
1	2	3	4
	11	थलीसैण	3292
	12	यमकेश्वर	3159
	13	पौड़ी	2113
	14	पावौ	2364
	15	पोखड़ा	1881
		योग	39367
9-पिथौरागढ़	1	गंगोलीहाट	4305
	2	मूनाकोट	3594
	3	कनालीछीना	3625
	4	धारचूला	3800
	5	पिथौरागढ़	3426
	6	डीडीहाट	3121
	7	मुनस्यारी	4326
	8	बेरीनाग	3303
		योग	29500
10-रुद्रप्रयाग	1	अगस्त्यमुनि	5325
	2	जखोली	3892
	3	ऊखीमठ	2991
		योग	12208
11-टिहरी	1	नरेन्द्रनगर	3211
	2	कीर्तिनगर	2529
	3	चम्बा	2686
	4	देवप्रयाग	3151
	5	भिलगना	4556
	6	थौलधार	2611
	7	जौनपुर	3773
	8	प्रतापनगर	2880
	9	जाखणीधार	2693
		योग	28090
12-ऊधमसिंह नगर	1	खटीमा	7707
	2	सितारगंज	7303
	3	रुद्रपुर	6509
	4	गदरपुर	5075
	5	बाजपुर	5481
	6	काशीपुर	4800

जनपद का नाम	क्र.सं.	क्षेत्र पंचायत का नाम	वित्तीय वर्ष 2017-18 की द्वितीय किश्त की धनराशि का सक्रमण
1	2	3	4
	7	जसपुर	4782
		योग	41657
13-उत्तरकाशी	1	भटवाडी	3447
	2	डुण्डा	2919
	3	चिन्यालीसौड़	2468
	4	नौगांव	3689
	5	पुरोला	1773
	6	मोरी	2627
	95	योग	16923
		कुल योग :-	365558

(₹ छत्तीस करोड़ पचपन लाख अठान्न हजार मात्र)

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त।

बिभागाध्यक्ष का नाम - Secretary Finance

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 2017-2018

अनुदान संख्या 007 (वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें)

लेखाशीर्षक- 3604 - स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को कतिपय तथा समनुदेशन
 02 - पंचायती राज संस्थायें
 197 - विकास खण्ड स्तरीय पंचायत
 03 - राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन
 00 - राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन

S.No	Treasury	DDO Name	Allotment Id	Allotment Date	NonPlan Voted		Name of local bodies
					Previous Allotment	Current Allotment	
1	0100-Dehradun	4183-District Magistrate (For Grants)Dehradun	H1710070197	06-OCT-2017	33139000	33139000	
2	3600-Nainital	4183-District Magistrate (For Grants)Nainital	H1710070199	06-OCT-2017	25348000	25348000	
3	3700-Almora	4183-District Magistrate (For Grants)Almora	H1710070193	06-OCT-2017	34234000	34235000	
4	3800-Pithoragarh	4183-District Magistrate (For Grants)Pithoragarh	H1710070201	06-OCT-2017	29500000	29500000	
5	4000-Chamoli (Gopewar)	4183-District Magistrate (For Grants)Chamoli	H1710070195	06-OCT-2017	33307000	33306000	
6	4100-Uttarkashi	4183-District Magistrate (For Grants)Uttarkashi	H1710070205	06-OCT-2017	16921000	16923000	
7	4200-Garhwal	4183-District Magistrate (For Grants)Pauri	H1710070200	06-OCT-2017	39367000	39367000	
8	6100-New Tehri	4183-District Magistrate (For Grants)Tehri	H1710070203	06-OCT-2017	28091000	28090000	
9	6500-Haridwar	4183-District Magistrate (For Grants)Haridwar	H1710070198	06-OCT-2017	43140000	43139000	
10	7500-U S Nagar	4183-District Magistrate (For Grants)U S Nagar	H1710070204	06-OCT-2017	41658000	41657000	
11	8800-Champawat	4183-District Magistrate (For Grants)Champawat	H1710070196	06-OCT-2017	13374000	13374000	
12	8900-Bageshwar	4183-District Magistrate (For Grants)Bageswar	H1710070194	06-OCT-2017	15272000	15272000	
13	9000-Rudraprayag	4183-District Magistrate (For Grants)Rudraprayag	H1710070202	06-OCT-2017	12207000	12208000	
Total :					365558000	365558000	

(सिंह नेगी)
 सचिव,
 007, आभवा प्रदशन,
 007, आभवा प्रदशन,
 उत्तराखण्ड

